

मसाले

कमोडिटी	एक्सपायरी	स्टॉपलॉस 2	स्टॉपलॉस 1	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 2	रूझान
धनिया ( अप्रैल )	19-अप्रैल-24	7596.00	7650.00	7740.00	7794.00	7884.00	मंदी
धनिया ( मई )	19-मई-24	7768.00	7790.00	7820.00	7842.00	7872.00	मंदी
जीरा ( अप्रैल )	19-अप्रैल-24	22975.00	23050.00	23175.00	23250.00	23375.00	मंदी
जीरा ( मई )	19-मई-24	23375.00	23250.00	23375.00	23250.00	23375.00	मंदी
हल्दी ( अप्रैल )	19-अप्रैल-24	16415.33	16610.67	16825.33	17020.67	17235.33	साइडवेज
हल्दी ( जून )	20-जून-24	17014.00	17188.00	17394.00	17568.00	17774.00	मंदी

तिलहन एवं खाद्य तेल

कमोडिटी	एक्सपायरी	स्टॉपलॉस 2	स्टॉपलॉस 1	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 2	रूझान
कैस्टरसीड ( अप्रैल )	19-अप्रैल-24	5862.33	5896.67	5929.33	5963.67	5996.33	मंदी
कैस्टरसीड ( मई )	19-मई-24	5849.67	5872.33	5898.67	5921.33	5947.67	मंदी

अन्य कमोडिटी

कमोडिटी	एक्सपायरी	स्टॉपलॉस 2	स्टॉपलॉस 1	मध्य	रेजिस्टेंस 1	रेजिस्टेंस 2	रूझान
कपास ( अप्रैल-24 )	30-अप्रैल-24	1512.33	1516.67	1521.33	1525.67	1530.33	साइडवेज
कोकूड ( अप्रैल )	19-अप्रैल-24	2498.67	2517.33	2547.67	2566.33	2596.67	मंदी
कोकूड ( मई )	19-मई-24	2525.33	2543.67	2575.33	2593.67	2625.33	मंदी
ग्वारसीड ( अप्रैल )	19-अप्रैल-24	5321.67	5355.33	5389.67	5423.33	5457.67	साइडवेज
ग्वारसीड ( मई )	19-मई-24	5410.67	5445.33	5481.67	5516.33	5552.67	साइडवेज
ग्वारगम ( अप्रैल )	19-अप्रैल-24	10554.00	10663.00	10762.00	10871.00	10970.00	तेजी
ग्वारगम ( मई )	19-मई-24	10663.00	10792.00	10905.00	11034.00	11147.00	तेजी
मेंथा ऑयल( अप्रैल )	30-अप्रैल-24	896.43	901.17	906.83	911.57	917.23	साइडवेज
मेंथा ऑयल( मई )	31-मई-24	907.47	911.83	915.87	920.23	924.27	साइडवेज

\*\*One has to follow the trend and see the price only at closing. This is not for Intra day trading.

## कृषि कमोडिटीज आउटलुक

### मसाले

भौतिक बाजार में कमजोर मांग के कारण हल्दी की कीमतों में गिरावट हुई। लेकिन हल्दी में गिरावट सीमित रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2024 में कम उत्पादन के कारण आवक की गति पिछले वर्ष की तुलना में धीमी रही। पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम रकबे के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 14% गिरावट होने की संभावना है और यह 9.2-9.5 लाख टन के बीच रह सकता है। मुख्य ध्यान चल रही कटाई गतिविधियों पर होगा, जो आगे शुष्क मौसम की स्थिति के मद्देनजर बढ़ने की संभावना है। मौजूदा आपूर्ति की कमी के कारण स्टॉकिसट कीमतों में हर गिरावट पर हल्दी खरीदने के लिए आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन कमजोर निर्यात पूछताछ के कारण बढ़त सीमित होने की संभावना है। जनवरी-24 में भारत से हल्दी निर्यात 15% कम होकर 10.49 हजार टन हो गया, जबकि अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष से 3.5% कम होकर 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। **हल्दी (अप्रैल) वायदा की कीमतें 17100-17800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।**

खरीददारी में बढ़ोतरी होने से जीरा वायदा कीमतों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। सीरिया और तुर्की में कम उत्पादन के कारण वैश्विक आपूर्ति कम हो गई है, जिससे हाल के महीनों में भारतीय जीरा निर्यात को बढ़ावा मिला है। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। मौजूदा दरों पर जीरा की कीमतें प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, जिसने अंतरराष्ट्रीय खरीदारों को आकर्षित किया है। बंपर उत्पादन की संभावनाओं और नई फसल की शुरुआत से बढ़त सीमित होने की संभावना है। गुजरात और राजस्थान में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण कटाई गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है जिससे आपूर्ति में वृद्धि होगी। वर्ष 2024 में भारत में जीरा उत्पादन साल-दर-साल 30% बढ़ने की उम्मीद है। **जीरा की कीमतें 21500-25000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।**

नई फसल की कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ धनिया की कीमतों में गिरावट की संभावना है। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आवक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन स्टॉकिसटों ने कमजोर उत्पादन संभावनाओं के मद्देनजर अपने स्टॉक को भरने में रुचि दिखाई। न केवल घरेलू मांग बल्कि निर्यात मांग भी सक्रिय है जो कीमतों में बड़ी गिरावट को रोक देगी। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान लगभग 83.6 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में साल-दर-साल 215% अधिक है। **धनिया की कीमतें 7500-8000 के दायरे में रहने की संभावना है।**

### अन्य कमोडिटीज

मांग में कमी के कारण कपास की कीमतों में नरमी रहने की संभावना है। आईसीई में कॉटन की कीमतों में कमजोरी से बाजार का सेंटीमेंट कमजोर रहा। आईसीई आंकड़ों के मुताबिक, प्रमाणित कपास का स्टॉक 670 गांठ की बढ़ोतरी के साथ 93,324 गांठ हो गया। 2023-24 के लिए अपलैंड की शुद्ध निर्यात बिक्री कुल 84,900 रनिंग बेलस (आरबी) थी, जो पिछले सप्ताह से 14 प्रतिशत कम थी लेकिन पिछले 4-सप्ताह के औसत से 4 प्रतिशत अधिक थी। स्पनिंग मार्जिन में गिरावट के कारण औद्योगिक मांग धीमी हो गई है जिससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन गिरावट सीमित होने की संभावना है क्योंकि घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतें अधिक रहने की संभावना है क्योंकि आने वाले हफ्तों में आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 65%-68% आवक बाजार में पहुंच चुकी है। **एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 61000-62500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है, जबकि कपास (अप्रैल 24) वायदा की कीमतों के 1500-1550 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

निर्यात मांग में सुधार के कारण ग्वार सीड वायदा की कीमतों में तेजी का रूझान बना रह सकता है। ग्वारगम की बढ़ती निर्यात की रिपोर्ट से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती से ग्वारगम की निर्यात मांग में वृद्धि होगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्रिलिंग गतिविधियों में वृद्धि होगी जहां ग्वारगम का उपयोग ड्रिलिंग को सुचारू बनाने के लिए किया जाता है। पेराई मार्जिन में सुधार हुआ है जिससे ग्वारगम की पेराई मांग में वृद्धि होगी। आवक कम है जिससे कीमतों में बढ़ोतरी होगी। जनवरी-24 में ग्वार गम का निर्यात सालाना 30% बढ़कर 20.05 हजार टन हो गया। **ग्वारसीड की कीमतों को 5200 रू पर सपोर्ट मिल सकता है जबकि 5650 पर रेजिस्टेंस रह सकता है जबकि ग्वारगम की कीमतों के 10500-11300 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

कीमतों में हाल ही में गिरावट के बाद उभरती मांग के कारण मेंथा ऑयल की कीमतें बढ़ने की संभावना है। कम आपूर्ति और कमजोर उत्पादन अनुमान से कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। मेंथा का क्षेत्रफल साल-दर-साल कम से कम 10% कम हुआ है, जिससे उत्पादन में साल-दर-साल कम से कम 7%-8% की गिरावट आएगी। भारत ने पिछले वर्ष 2016.7 टन की तुलना में अप्रैल 23-जनवरी 24 के दौरान लगभग 1709.2 टन मेंथा तेल का निर्यात किया। **मेंथा ऑयल की कीमतें 930 पर मजबूत रेजिस्टेंस के साथ 895 रू पर सपोर्ट ले सकती है।**

घरेलू बाजार में कमजोर मांग के कारण अरंडी की कीमतों में गिरावट की संभावना है। हाल ही में कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पेराई मांग धीमी हो गई है। कैस्टर मील के सुस्त निर्यात से भी कीमतों पर दबाव पड़ेगा। **अरंडी वायदा की कीमतों के 5800-6200 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।**

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



**Corporate Office:**  
11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

**Mumbai Office:**  
Lotus Corporate Park, A/Wing 401/402, 4th Floor,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

**Kolkata Office:**  
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशंसात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाओं और संबंधित सेवाओं करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कमिटेड नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एमसीएस स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीडेंट द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एनएच द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशिष्ट कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय है।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सक्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कनेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कनेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उदरय, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता को जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश का वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बढ़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉरक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटी में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इन्का अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विचारों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।